23-8-18 पत्रावली प्रार्थिया के
मिसल तलबी के प्रार्थना
पत्र पर आज पेश हुई।
प्रार्थिया व वकील एवं
उपस्थित आये प्रार्थिया की
पैरवी वकील प्रार्थिया नहीं
वाद आगे चलाना चाहता है
आवेदन ना स्वीकार किया जाता है
पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो

ह०नि०
गीतादेवी
पहचानकर्ता
अधिवक्ता

Not Press

उपखण्ड अधिकारी [illegible]रामगढ